



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 वैशाख 1934 (श0)
(सं0 पटना 197) पटना, वृहस्पतिवार, 10 मई 2012

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

8 मई 2012

सं0 08/सू0अ0 15-03/07 सा0प्र0-6550—विभागीय अधिसूचना सं0-1116, दि0 31.01.2007 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार के सतह पर अपील दायर करने हेतु आवेदन शुल्क 10/- (दस) रुपये प्रति अपील निर्धारित है। "जानकारी" के वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाइन प्रथम व द्वितीय अपील दायर करने के लिए 10/- (दस) रुपये प्रति अपील शुल्क की कटौती करने के प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 197-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>